



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] वर्ष विल्वी, शनिवार, अक्तूबर 4—अक्तूबर 10, 2003 (अश्विन 12, 1925)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 4—OCTOBER 10, 2003 (ASVINA 12, 1925)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 999

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 789

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं 5

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1245

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *

*अंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—261 G/2003

भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1385

भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 4477

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 9361

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 305

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला उपपुरक *

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	999	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	•
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	789	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	•
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	1385
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1245	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	4477
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	•	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	•
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations	•	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	9361
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	•	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	305
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	•
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	•		

भाग 1—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2003

संकल्प

सं० I/20017/01/2003-रा०भा० (नीति-1)—भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिन्दी समिति, जिसे दिनांक 19 जून, 2000 के संकल्प संख्या I/20017/02/99-रा०भा० (नीति-1) द्वारा अधिसूचित किया गया था, का कार्यकाल एक वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 19-06-2003 से 18-06-2004 तक बढ़ाया जाता है।

एम० एल० गुप्ता, संयुक्त सचिव

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2003

संकल्प

सं० एफ० 27/5/96-एम०-I—इस विभाग के दिनांक 11 मार्च, 2003 के संकल्प संख्या एफ० 27-5-96 एम० I, जिसे 5 अप्रैल, 2003 को भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-I में प्रकाशित किया गया था, के अनुक्रम में राष्ट्रपति, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को केन्द्रीय संग्रहालय सलाहकार बोर्ड (सी ए वी एम) की संरचना के भाग-ख की क्रम संख्या 7 पर उक्त बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में शामिल करते हैं। अन्य शर्तें एवं निबंधन यथावत रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधितों को सम्प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० सुब्बरायन, अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 2003

सं० क्यू०-16012/01/2001-ई०एस०ए० (एन० एल० आई०)—जबकि वी० वी० गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,

सैक्टर-24, नोएडा को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के अन्तर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

और जबकि, उपर्युक्त सोसायटी के नियमों एवं विनियमों के नियम IX में कार्यकारी परिषद के गठन का प्रावधान है।

अतः, अब, उपर्युक्त नियम IX के अनुसरण में, जनता की सुधमार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त कार्यकारी परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

अध्यक्ष

1. सचिव, श्रम मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

सदस्य

2. संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय,
(जी वी० वी० गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का कार्य देखते हों)
3. श्री एम० सी० वर्मा,
भा० प्र० सेवा (अवकाश प्राप्त),
190-बी, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्मस,
नई दिल्ली-110062।
4. श्री सुनील शास्त्री, संसद सदस्य (राज्य सभा),
66, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001।
5. श्री डी० के० सदाशिव,
मार्फत वी एम एस प्रदेश कार्यालय एस सी रोड,
मैजेस्टिक, बंगलौर-560009।
6. श्री आर० वी० वी० सिंह, अध्यक्ष, टाटा वर्क्स युनियन,
41, एम० रोड, बिस्टुपुर, जमशेदपुर।
7. श्री विजय पुरी,
स्मॉल मैनूफैक्चरर्स फोरम गुडगांव, मार्फत एफ-213-ए,
लाडो सराय, एम० वी० रोड, नई दिल्ली-110030।
8. डॉ० राम तरनेजा,
अध्यक्ष, इम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, आर्मी एण्ड
नेवी बिल्डिंग, 148, महात्मा गांधी रोड,
मुंबई-400001।

सदस्य

9. श्री ललित भाई मेहता,
संसद सदस्य (राज्य सभा),
57, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001।
10. वित्त सलाहकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली।
सदस्य-सचिव
11. निदेशक,
बी० बी० गिरि, राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर-24,
नोएडा।

बीना रानी विज, अवर सचिव

(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 2003

सं० डीजीईटी-19(1)/2003-सीडी—भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशित दिनांक 21/24 अगस्त, 1956 के संकल्प सं० टीआर/ईपी-24/56 में आंशिक संशोधन करके दिनांक 1 अगस्त, 2003 के संकल्प सं० डीजीईटी-19(1)/2003-सी डी भारत सरकार के पैरा 5 के उप पैरा (ई) से (के) के अनुसरण में तथा श्रम मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) भारत सरकार में दिनांक 21 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या डीजीईटी-19(1)/2003-सी डी के अधिक्रमण में निम्नलिखित केन्द्र सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों को संबंध प्राधिकारियों के परामर्श से विभिन्न संगठनों, निकायों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 जुलाई, 2003 से तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद हेतु नामित किया गया है।

क्रम सं०	सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन का नाम
1	2	3

1. कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि

- (i) श्री अश्विन दानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मंडल परिसंघ एशियन पेट्स (इण्डिया) लि० (FICCI) एफ आई सी सी 6-ए, शान्ति नगर, वकोला आई (फिक्की) पाइपलाइन सान्ता क्रुज (ई) मुंबई-400055
- (ii) श्री एस० सेन भारतीय उद्योग महासंघ उप महानिदेशक (सी आई आई) 23, संस्थागत क्षेत्र लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

1 2 3

- (iii) श्री प्रॉकथान मुखरजी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग सहायक महाप्रबंधक विनिर्माण सहमंडल (एसोचम) भारतीय एल्यूमिनियम कं० लि० (इन्डल) 39, ग्रांड ट्रंक रोड बेलूरमठ-711202 जनपद हावड़ा, (पश्चिम बंगाल)

2. कामगार संगठनों के प्रतिनिधि

- (i) श्री सुखदेव प्रसाद मिश्रा भारतीय मजदूर संघ 4/3, दादा नगर, श्रम कालोनी कानपुर-208001।

- (ii) श्री आर० बी० बी० सिंह राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस अध्यक्ष, टाटा कामगार संघ 17 के मार्ग, बिस्तुपुर जमशेदपुर-831001।

- (iii) श्री अरघेन्दु दक्षी भारतीय ट्रेड यूनियन सचिव, सी आई टी यु तथा अध्यक्ष, भारतीय स्टील कामगार परिसंघ 1, विद्यासागर एयुनू दुर्गापुर-713205 (पश्चिम बंगाल)

3. व्यावसायिक व वृद्धिजीवी निकायों के प्रतिनिधि

- i) डा० ए० के० यादव जनसाधन अनुसंधान अनुप्रयुक्त जन शक्ति शोध संस्थान, प्रमुख संस्थान प्लॉट सं०-25, सेक्टर ए-7, संस्थागत क्षेत्र नरेला, दिल्ली-110040।

- (ii) श्री पी० आर० स्वरूप निर्माण उद्योग विकास महानिदेशक निर्माण उद्योग विकास परिषद 8बी मंजिल, हेमकुन्ट चैम्बर्स 89 नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110019।

- (iii) प्रो० अरविन्द त्रिपाठी भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद वस्त्रापुर, अहमदाबाद-380015।

- (iv) प्रो० अरुण मुदबित्री सिमबोसिस इंस्टीट्यूट निदेशक ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सिमबोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सेनापति बपत मार्ग, पुणे-411004।

1	2	3
v) प्रो० आर० सागर	भारतीय प्रौद्योगिकी	
यांत्रिक इंजीनियरी विभाग	संस्थान दिल्ली	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली		
होज खास, नई दिल्ली-110016।		
vi) प्रो० के० सुब्रामणियम	अखिल भारतीय	
सलाहकार (प्रशा०/सी०जी०)	तकनीकी शिक्षा	
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा	परिषद	
परिषद		
इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कामप्लेक्स		
आई पी स्टेट, नई दिल्ली-110002।		
4. विशेषज्ञ		
i) श्री जी० सी० तेवतिया		
316, सेक्टर-15,		
फरीदाबाद, हरियाणा।		
ii) श्री आर० के० भंडारी		
स्कोप कामप्लेक्स, फ़ोर-8,		
आई टी डी सी कार्यालय,		
छठी मंजिल,		
सी जी ओ कामप्लेक्स, नई दिल्ली।		
iii) श्री मनोज शर्मा		
86, बी-1, मयूर विहार (फ़ेज-1)		
नई दिल्ली-110091।		

1	2	3
iv) प्रो० आर० पी० त्यागी		
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय		
वाराणसी, उत्तर प्रदेश।		
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	
के प्रतिनिधि		
i) श्रीमती शीला देवी		
आर जेड-64, एच ब्लॉक		
समीप टैंट वाला स्कूल		
पश्चिमी सागर पुर		
नई दिल्ली-110046।		
ii) श्री राम लाल प्रसाद	अनुसूचित जन जाति	
217, श्रम कालोनी		
नती इमली, वाराणसी, यू० पी०।		
6. अखिल भारतीय महिला संगठनों	सेवा	
के प्रतिनिधि		
श्रीमती रेनाना झब्बावाल		
राष्ट्रीय समन्वयक सेवा		
नई दिल्ली।		

आज्ञा मूर्ति
महानिदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 24th September 2003

RESOLUTION

No. I/20017/01/2003-O. L. (Policy-1).—The Government of India extends the term of the Kendriya Hindi Samiti, notified vide Resolution No. I/20017/02/99-O. L. (Policy-1) dated 19-06-2000, by one year i.e. from dated 19-06-2003 to 18-06-2004.

M. L. GUPTA
Joint Secy.

MINISTRY OF TOURISM & CULTURE

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 19th September 2003

No. F. 27-5/96-M. L.—In continuation of this Department's Resolution No. F. 27-5/96-M. L. dated March 11, 2003 published in Part I Section I. of Gazette of India dated April 05, 2003 the President is pleased to include the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi as Ex-Officio Member to Central Advisory Board of Museum (CABM) at Sl. 7 of part B of composition of CABM. The other terms and conditions will remain the same.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution may be communicated to all concerned.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. SUBBARAYAN
Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd September 2003

No. Q-16012/1/2001-ESA(NLI)—WHEREAS the V. V. Giri National Labour Institute, Sector 24, Noida has been registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860 (Punjab Amendment Act, 1957).

AND WHEREAS Rule IX of the Rules & Regulations of the said Society provides for constitution of Executive Council.

NOW, therefore, in pursuance of Rule IX aforesaid, it is hereby notified for the information of the public that the said Executive Council shall consist of the following persons, viz :—

Chairman

1. Secretary, Ministry of Labour,
Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

Members

2. Joint Secretary who is looking after the work of VV Giri NLI in the Ministry of Labour.
 3. Shri M. C. Verma, IAS (Retd.),
190-B, Cariappa Marg Sainik Farms,
New Delhi-110 062.
 4. Shri Sunil Shastri, M.P. (Rajya Sabha),
66, North Avenue, New Delhi-110 001.
 5. Shri D. K. Sadashiva,
C/o BMS State Office, S.C. Road, Majestic,
Bangalore-560 009.
 6. Shri R.B.B. Singh,
President, Tata Workers' Union,
41, M. Road, Bistupur, Jamshedpur.
 7. Shri Vijay Puri,
Small Manufacturers Forum Gurgaon,
C/o F-213-A, Lado Sarai, M.B. Road,
New Delhi-110 030.
 8. Dr. Ram Tarneja,
President, Employers Federation of India,
Army & Navy Building, 148 Mahatma Gandhi Road,
Mumbai-400 001.
 9. Shri Lalitbhai Mehta,
M.P. (Rajya Sabha),
57, South Avenue, New Delhi-110 011.
 10. Financial Adviser,
Ministry of Labour,
Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
- Member-Secretary
11. Director,
V. V. Giri National Labour Institute,
Sector 24, Noida.

BINA RANI VII
Under Secy.

(D.G.E&T)

New Delhi, the 19th September 2003

No. DGE&T-19 (1)/2003-CD.—In pursuance of Sub-Paragraphs (e) to (k) of paragraph 5 of the Government of India Resolution No. DGE&T-19 (1)/2003-CD dated 1st August, 2003 amending partially the Resolution No. TR/EP-24/56 dated 21st/24th August, 1956, published in the Gazette of India Part-I, Section-I and in the supersession of Notification No. DGE&T 19 (1)/2003-CD dated 21-07-2003 of the Government of India, Ministry of Labour (Directorate General of Employment & Training), the following persons have been nominated by the Central Government in consultation with the authorities concerned to represent the various organization, bodies etc. on the National Council for Vocational Training for a period of three years from 01-07-2003.

Sl. No., Name of the Member and Organization Representing

- (1) Representative of Employers Organization
Federation of India Chambers of Commerce & Industry (FICCI)
 - (i) Sh. Ashwin Dani
Vice Chairman & Mg. Director
Asian Paints (India) Ltd.
6-A Shanti Nagar
Vakola Pipeline
Santa Cruz (E).
Mumbai-400055.

Confederation of Indian Industries (CII)

- (ii) Sh. S. Sen
Deputy Director General
23, Institutional Area
Lodi Road
New Delhi-110003.

The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHM)

- (iii) Sh. Procyon Mukherjee
Asstt. General Manager Manufacturing
Indian Aluminium Co. Ltd. (INDAL)
39, Grand Trunk Road
Belurmath-711202
Distt. Howrah, West Bengal.

(2) Representative of Workers Organizations

Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS)

- (i) Sh. Sukhdev Prasad Mishra
4/3, Dada Nagar, Labour Colony,
Kanpur-208001.

Indian National Trade Union Congress (INTUC)

- (ii) Sh. R. B. B. Singh
President
Tata Workers Union
17K Road, Bistupur
Jamshedpur-831001.

Centre of Indian Trade Unions (CITU)

- (iii) Sh. Ardhendu Dakshi
Secretary, CITU &
President, Steel Workers Federation of India
1, Vidyasagar Avenue
Durgapur-713205, West Bengal.

(3) Representatives of Professional & Learned Bodies

Institute of Applied Manpower Research (IAMR)

- (i) Dr. A. K. Yadav
Chief,
Institute of Applied Manpower Research
Plot No. 24, Sector A-7, Institutional Area
Narela, Delhi-110040.

Construction Industry Development Council (CIDC)

- (ii) Sh. P. R. Swarup
Director General
Construction Industry Development Council
8th Floor, Hemkunt Chambers,
89 Nehru Place
New Delhi-110019.

Indian Institute of Management (IIM, Ahmedabad)

- (iii) Prof. Arbinda Tripathy
Indian Institute of Management
Vastrapur, Ahmedabad-380015.

Symbiosis Institute of Business Management (PUNE)

- (iv) Prof. Arun Mudbidri
Director,
Symbiosis Institute of Business Management
Senapati Bapat Marg, Pune-411004.

Indian Institute of Technology, Delhi (IIT, Delhi)

(v) Prof. R. Sagar

Department of Mechanical Engineering
Indian Institute of Technology Delhi
Hauz Khas, New Delhi-110016.

(iv) Prof. R. P. Tyagi

Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh

5. Representative of SC/ST

SC

(i) Smt. Sheela Devi

RZ-64, H Block
Near Tent Wala School
West Sagar Pur
New Delhi-110046.

ST

(ii) Sh. Ram Lal Prasad

2/7, Labour Colony
Nati Imly
Varanasi, U. P.

6. Representative of All India Women Organization
SEWA

Smt. Renana Jhabawala
National Coordinator,
SEWA, New Delhi.

ASHA MURTY
Director General of Employment & Training/
Joint Secretary

4. Experts

(i) Sh. G. C. Tewatia

316, Sector—15
Faridabad, Haryana.

(ii) Sh. R. K. Bhandari

Scope Complex
Core—8
ITDC Office, 6th Floor, OGO Complex
New Delhi.

(iii) Sh. Manoj Sharma

86—B-1, Mayur Vihar (Ph-1)
New Delhi-110091.